

11 अक्टूबर 2023

# विशेष रिपोर्ट काँटन और ग्वार काँम्प्लेक्स

अक्टूबर 2023



 **smc**  
moneywise. be wise.

आगामी सीजन के लिए कम उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए सितंबर-23 के अधिकांश भाग में कपास की कीमतें ऊंची रहीं। बाजार में कम आपूर्ति और मिल मालिकों एवं किसानों के पास सीमित स्टॉक के कारण सितंबर 23 में कीमतों को बढ़त दर्ज करने में मदद मिली। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतें सितंबर 23 में 3% मासिक वृद्धि के साथ 62000 तक पहुंच गईं।

फसल उत्पादन कम होने के कारण सितंबर-23 में भी आपूर्ति कम रही, जिससे कीमतों में तेजी आई। सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से प्रभावी नई 2023/24 एमएसपी दरों की घोषणा के बाद से आवक की गति धीमी हो गई है। देश भर के किसानों को उम्मीद है कि न्यूनतम बिक्री मूल्य नई घोषित एमएसपी दरों या उससे अधिक के अनुसार होगा। वर्ष 2022-23 में लगभग 332 लाख गांठ कपास की आवक हुई। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में कुल कपास उत्पादन 337 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है।

लेकिन, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत में कपास उत्पादन का अनुमान 311.18 लाख गांठ लगाया है, जो पांच साल के औसत स्तर से काफी कम है। निर्यात में रिकॉर्ड गिरावट और घरेलू बाजार में औद्योगिक मांग में कमी के बावजूद, कपास का अंतिम स्टॉक पिछले वर्ष के 24 लाख गांठ की तुलना में घटकर 23.18 लाख गांठ रह गया। कपास की कुल आपूर्ति पिछले वर्ष की 385 लाख गांठ के मुकाबले 9% कम होकर 350.18 लाख गांठ रही। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के अनुसार, सितंबर में समाप्त हुए 2022-23 सीजन में भारत का कपास निर्यात 15.50 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) के रिकॉर्ड निचले स्तर तक कम होने का अनुमान है।

वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो नई फसल की आवक शुरू हो गई है और आने वाले हफ्तों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। उत्तर भारत में गुलाबी बॉलवॉर्म के कारण उपज में कमी के बीच कम उत्पादन की चिंताओं के कारण कपास की कीमतों में तेजी के रुझान की उम्मीद है। गुलाबी बॉलवॉर्म ने 2023-24 की फसल (अक्टूबर-सितंबर) की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। वर्ष 2023 में अब तक कपास के कुल उत्पादन क्षेत्र में साल-दर-साल 3.2% की कमी आई है, जिससे वर्ष 2022-23 में उत्पादन में गिरावट आएगी। वर्ष 2023 में कपास के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में गिरावट के कारण कपास उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 8% -10% की कमी होने की उम्मीद है। सीसीआई द्वारा अक्टूबर में अपना खरीद अभियान शुरू करने की संभावना है, जिससे किसान सरकारी खरीद द्वारा बेहतर कीमतों की प्राप्ति की उम्मीद में अपनी उपज रोककर रख सकते हैं। केंद्र ने मध्यम स्टेपल किस्म के लिए कपास का एमएसपी 6,620 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल किस्म के लिए 7,020 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। कम उत्पादन का असर कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतों पर भी दिखने की संभावना है। कम आपूर्ति और कॉटनसीडऑयलकेक की मौसमी मांग में वृद्धि की उम्मीद से कीमतों में मजबूती को समर्थन मिलेगा।

उपरोक्त फंडामेंटल के आधार पर, एमसीएक्स कॉटन ( नवंबर ) की कीमतें तेजी के रुझान के साथ 58000-63000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।


इसी तरह, कपास ( अप्रैल 24 ) वायदा की कीमतों के 1600-1740 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतों के 2600 के स्तर पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले हफ्तों में 3000 के रेजिस्टेंस स्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

# ग्वार कॉम्प्लेक्स

सितंबर 2023 में ग्वारसीड और ग्वारगम की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि सितंबर में अच्छी बारिश के कारण आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ। फसल की स्थिति में सुधार हुआ, जबकि मांग कम रही, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा। नई फसल की आवक शुरू हो गई है जिससे बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ा है। स्टॉकिस्टों से भी उम्मीद की जाती है कि वे नई फसल शुरू होने से पहले अपना स्टॉक उतार देंगे जिससे आपूर्ति पर्याप्त रहेगी। सुस्त निर्यात की खबरों के कारण कीमतें दबाव में हैं क्योंकि जुलाई में ग्वारगम निर्यात पिछले साल के 20 हजार टन की तुलना में गिरकर 15.24 हजार टन रह गया।

जुलाई-23 के दौरान ग्वारगम का निर्यात अधिक रहा जिसके कारण जुलाई-23 में ग्वार डेरिवेटिव उत्पादन के समग्र निर्यात में वृद्धि हुई। भारत ने 377 हजार टन की तुलना में लगभग 394 हजार टन ग्वारगम का निर्यात किया।



आगे चलकर, आगामी सीजन के लिए कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण ग्वार की कीमतें तेजी के रुझान पर कारोबार कर सकती है। कम उपज और कम बुआई के कारण ग्वारसीड उत्पादन में 10%-14% की गिरावट की उम्मीद है। क्षेत्र में साल-दर-साल लगभग 10% की कमी आई है और इसका असर कुल उत्पादन पर दिखने की संभावना है। बुआई और उपज अनुमान को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2023-24 के लिए कुल उत्पादन पिछले वर्ष के 1230 हजार टन की तुलना में 1070 हजार टन होने का अनुमान है।

उपरोक्त फंडामेंटल के आधार पर ग्वारसीड की कीमतें तेजी के रुझान के साथ 5200-6400 के दायरे में कारोबार कर सकती है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों के आने वाले हफ्तों में 11000-14500 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

वंदना भारती	एवीपी कर्मोडिटी रिसर्च	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 625	vandanabharti@smcindiaonline.com
रवि पाण्डेय	सीनियर रिसर्च एनालिस्ट	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 674	ravi16@smcindiaonline.com
शिवानन्द उपाध्याय	रिसर्च एसोसिएट	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 646	shivanand@smcindiaonline.com

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार को जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोडिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोडिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्यूनिटी नेशनल कर्मोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह प्युतुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएसएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोडिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोडिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिन्क्रोडिटीज मार्केट/कर्मोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधि एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सब्सक्रिप्शन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विस्वस सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पॉजिशन हो सकती है और वह इस कर्मोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकार में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा।